ॐ. नवोवदतरगवान्नात्मना आयुष्मानः अभिषुत्रक्षू श्चीवर्वा केनिश्च वस्था माध्यम
हात्मतु: लाच सर्वावति पर्षत्सदेवमानुषासुरगन्धर्वश्च, लोको भगवतो भाषितमभ्यन
न्दन्निति ॥ ॥ आर्यग्रहयान्मिकाहृदयनामधारणि समाप्ता ॥ ॥ यध
र्मा ॥ ॥ ॥ ॥

ASHA ARCHIVES 3774

ॐ नमःश्री मा विश्वेवा त्रवमायाः ॥ नमक स्मिस्मयहनवान् श्राव ह्मा दिद ब जिस्माः छम्ः

वन ज्ञूना प्यिदस्य ला मम दनाहिन्ह्रूलं थनसार्द्धमन्द्रित्र या द गहिर्लि क्रू गके: संवहलेश्वम

हा अव के बोधिसत्वैम हा सत्वैः नत्रछवू रनता नलि कूनामक्त्र यन स्राव अस्त्रिहिकू वीःमाः १४

लिविना मदवकासासूर्यचंदमली: पूवकी: नूगेक्व लि: सावछ थ्यनगृहन नवध्य नन:

निकूध्य वा नमरव्य नन कूर्यनन दन्शु ननन. सून्धूननः दक्ष नन सूनान कूपगक्व लि: सावि

नसा हिकू थीमा लिविनामदवकायानामज्ञा नाकि सा थेन छ थ्य गन गृह क्ष न न वध्य

गन निकूध्य नन मूष नन मूक्ष नन दन्शु नन दक्ष नन मकू मूयगक्व लि वासी: हि:

कू वीमा विविदवकाया नामज्ञा नामी सूहमापिन हू द थ्य नन गूक्व नमू वाध्य नमूवाः

नमूक्षन दन्शु नमू न्शु नं दक्षन मक्षां मूयगक्व लि: कू मानिमत्रुप्र दानि र वनि वा नयः

ॐ यमक कर्म्म हिपवाक्रूर्म्म हि सूर्क्ष मनि ङर्म्म महिं वनमसि गुलमसि विवलमलि:

महाश्रियवयमसि सुजह्वानम ... स्वाहा ॥ ॐ मावी विदव हूं मां ग्रसयय नस्य हूं मां ग्र
ययवाजकूनू गीमा ह्मयया ... ध्वजनयद गीमा ग्रसयय द्रष्टिलक्षयानां ग्रसयय वीन
ह्रयां यां स्वययः स्नूमीलयामां स्वयय डुदकलयामा ग्रसयय वाजगीमा स्वययः सर्वाः १५
न्यायथिषकप्रल्लकमित्रानां मां स्वययः ज्ञाकुलस्य मां स्वययः स्नुनाकुलीमूम्रङ्किणघू
सिंद्धगीमवन्ध व्याघ्रगीमवन्धः नागगीष्ववन्ध सर्वगीमवन्ध सर्वगीमवन्ध ॥ कयथा ॥

ॐ अलली मालीमकुञ्जे सर्वमुद्रे बन्धे रममम ... वरक्षा सर्वसत्त्वानाञ्चः सर्वदलया
द्रवेभ्यः स्वाहा ॥ ॐ नमो वज्रहृदयायः ॐ नमो भगवति आर्य्य मारीचि देव्यायैः मम दद
यावम वर्द्धे हूं ध्यामि ॥ कयथा ॥ ॐ वर्कालि लिवलद मू क्षिसर्वदुष्टप्रदुष्टानां वन्धमूस्वाधर
स्वाहा ॥ ॐ मा विविय स्वाहा ॥ ॐ वनलिवर्कालि लिवदवि रववालिकवाहमू क्षिसर्वदुष्टानां
वद ... हूं ... रक्ष रक्ष स्वाहा ॥ ॥ हूं दमबीवन्ध ... भगवाः नामनामी वायुघ्नानानं ...

वैः कश्च सर्व्वावति य पर्षत्सदेवमानुषासुरगरुडमहोरगकिन्नरगन्धर्वश्च लोको भगवतो भाषित

मभ्यनन्दन्निति ॥ ॥ आर्य्यमारिचिनामधारनि समाप्ता ॥ ॥ ये धर्म्मा वा ॥ ॥

ॐ नमो भगवत्यैः आर्य्यग्रहमातृकायै ॥ एवं मया श्रुतं एकस्मिन्समये भगवानकव १४

त्यां महानगर्य्यामनेकदेवनागयक्षगन्धर्वासुरगरुडकिन्नलमहोरगमनुष्यैः वादि लक्षः

स्मः ॥ गुं ॥ गवः बृहद्व हस्पतिशुक्रशनिश्चरः राहुकेतुप्रमुखा विंशति नक्षत्रदिदिक्पालयः

ASHA ARCHIVES 3774